

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।  
(विधि शाखा)

अधिहरण (Confiscation) वाद सं०-48/2022-23

सरकार  
-बनाम-  
सुनिल साहु  
आ दे श

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक -2133/अ० शा० दिनांक - 02.08.2022 के द्वारा वादी रविन्द्र कुमार पाण्डेय पे०-भागीरथ पाण्डेय सा०-परता थाना-हैदर नगर जिला-पलामू वर्तमान अंचल अधिकारी बसिया के लिखित आवेदन के आधार पर बसिया थाना काण्ड सं०-45/2022 दिनांक-17.06.2022 धारा-379/414 भा० द० वि० 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004 एवं 7/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन एवं भण्डारण) नियम-2017 के तहत अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन एवं परिवहन करने के आरोप में जप्त ट्रैक्टर निबंधन संख्या-JH20A- 2482, के मालिक सुनिल साहु पे०-लोहरा साहु सा०-लौगां थाना-बसिया जिला-गुमला के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

उत्तरवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उत्तरवादी के द्वारा लिखित बहस समर्पित किया गया है, परन्तु उत्तरवादी के द्वारा सुनवाई के दौरान अवैध रूप से पत्थर का परिवहन करने से संबंधित कोई वैध कागजात न्यायालय में प्रस्तुत करने में असफल रहे। उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि ट्रैक्टर निबंधन संख्या-JH20A- 2482, के मालिक शाहजहा खान पिता-समासुद्दीन खान पता-ओड़गा थाना-जलडेगा जिला-सिमडेगा है। इस बात की पुष्टि जिला परिवहन पदाधिकारी गुमला के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन में अंकित है कि रविन्द्र कुमार पाण्डेय पे०-भागीरथ पाण्डेय सा०-परता थाना-हैदर नगर जिला-पलामू वर्तमान अंचल अधिकारी बसिया के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिक अभियुक्त के विरुद्ध अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन कर व्यवसाय करने का आरोप में अंकित किया गया है एवं इस कांड के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004 (यथा) संशोधित) के नियम-4 एवं 54 MMDR Act. 1957 के धारा-4 एवं 21 तथा Jharkhand Minerals Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rules-2017 के नियम-7 एवं 13 के तहत मालिक के विरुद्ध सत्य पाया गया है।

पुलिस अधीक्षक गुमला से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जप्त ट्रैक्टर निबंधन संख्या-JH20A- 2482, के मालिक शाहजहा खान पिता-समासुद्दीन खान पता-ओड़गा थाना-जलडेगा जिला-सिमडेगा के विरुद्ध बालू का उत्खनन कर परिवहन कर व्यवसाय करने के आरोप को सत्य पाया गया है।

The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) 2017 के Rule 7 में यह अंकित है कि:-

(1) "No person other than a dealer or a mining lease holder shall buy or store or sell or offer for sale or engage in any transaction of buying, selling, processing any mineral at any place or transport mineral for commercial gain without being

registered as a dealer.”

(2) Rule 11 (V) के अनुसार Any minerals tool equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court.

(3) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi के मूल आवेदन सं०-360/2015 प्रतिवेदित तिथि 15.01.2021 में यह अभिकथन किया गया है कि “Another issue bearing on the enforcement mechanism is the action against the vehicles used in illegal sand mining. Seizure of such vehicles is required and release of seized vehicles lightly defeats the purpose of the coercive measures. Since the vehicles are in a way weapon of offence, the same cannot be dealt with in the manner disputed property is dealt with under section 451 Cr.PC. by releasing the same in favour of the ostensible owner by taking an entrustment /indemnity bond/sapurdginama. In Sujit Kumar Rana”

अंकनीय है कि जप्त किये गये वाहन के द्वारा अवैध रूप से पत्थर का भंडारित कर परिवहन कार्य किया जा रहा है। साथ ही इस तरह के मामलों में उपयोग किये जाने वाले वाहन एवं डाला में पंजीकरण संख्या नहीं रहती है, तथा वाहनों से संबंधित वैध कागजात नहीं होने के कारण उसको अवैध रूप से परिवहन कार्य कराया जाता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि जप्त पत्थर एवं वाहन का परिवहन माईनिंग प्रावधानों में उल्लिखित नियमों के विरुद्ध किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त तथा N.G.T. न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय के आलोक में उक्त जप्त ट्रैक्टर निबंधन संख्या-JH20A- 2482, को राजसात करता हूँ।

आदेश के प्रति सभी संबंधित अधिकारी को दे।

लेखापित एवं संशोधित

22.12.22  
उपायुक्त,  
गुमला

23.12.22  
उपायुक्त,  
गुमला